



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1930 (शुक्र)
(सं० पटना-455) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2008

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2008

संख्या 1/रा.स्था. (3) वै.-07/2008 — 2925—श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी के अवकाश से लौटकर प्रभार ग्रहण की तिथि तक श्री कन्हैया लाल, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार, प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है।

2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-11, 14 (10), 26, 41, 44 (5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-12, 14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और धारा-34, 48 (उप धारा-6 एवं 8 को छोड़कर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 का एतत् संबंधी निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

4. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त प्रभार ग्रहण तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 455-571+5-डी0टी0पी0।